

(1) Review by the Government on the working of the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi, for the year 1967-68.

(2) Annual Report of the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi, for the year 1967-68 along with the Audited Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT-758/69]

ESTIMATES COMMITTEE

STATEMENT RE: REPLIES TO RECOMMENDATIONS

SHRI P. VENKATASUBBAIAH

(Nandyal): I beg to lay on the Table a Statement showing final replies to recommendations included in Chapter V of the Sixty-third Report of the Estimates Committee which were not furnished by Government in time for inclusion in the Report.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE FORTY-FIFTH REPORT

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : I beg to present the Forty-fifth Report of the Public Accounts Committee on action taken by Government on the recommendations of the Public Accounts Committee contained in their Thirty-fourth Report on Wasteful Expenditure on Government Publications.

PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE THIRTY-FIRST REPORT

SHRI G. S. DHILLON (Taran Taran) : I beg to present the Thirty-first Report of the Committee on Public Undertakings on action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-eighth Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on the Head Office of Hindustan Steel Limited.

12-06 hrs.

MOTION: RE SUSPENSION OF RULE 338 IN RESPECT OF CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I beg to move the following :

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1969, be suspended".

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1969, be suspended".

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय,...

MR. SPEAKER: I thought he had spoken on that.

Shri Vajpayee had proposed some amendment.

श्री श्रीचन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज यह विषय सुनिश्चित रूप में सदन के सामने आया है इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। नियम 338 सोच समझकर बनाया गया है कि जिस विषय को सदन ने एकबार एक सत्र में अस्वीकार किया हो तो उसको दुबारा उम्मी सत्र में अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यदि कोई उचित और आवश्यक काम हो, देश की भलाई का कोई काम किया जा रहा हो, जिससे कि नियम का उल्लंघन होता हो तब नियम से छुट्टी दिलाई जाय, यह बात समझ में आ सकती है, परन्तु आज नियम से बच निकलने का अर्थ यह है कि देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् दो वर्षों के अन्दर सरदार पटेल ने जो काम किया उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। आज सारा देश इस सदन की तरफ देख रहा है कि आगे हम इस देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करेंगे या देश के अन्दर एकता कायम करेंगे।

पिछली बार जब यह बिल हाउस में पास नहीं हो सका तब मैं समझता हूं कि सरकार जागरूक नहीं रही। सरकार का अपना दोष था। आजबहु अपने दोषों से छुट्टी लेने के लिये फिर से सदन से इस बात की अनुमति ले,

[श्री श्रीचन्द गोयल]

मैं समझता हूँ कि वह अनुचित बात है, विशेषकर जब कि गृहमंत्री ने इस बात का कारण नहीं बतलाया कि क्यों इस काम में इतनी जल्दबाजी की जा रही है। जब वर्षों से यह मामला चल रहा था, तब दो महीने बाद जब अगला सत्र होगा तब यह चीज आ सकती थी। इसमें इतनी जल्दबाजी की कौन सी बात थी? इसको बाद में सदन में पेश करना चाहिये था।

इस कारण से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

SHRI S. 'M. BANERJEE (Kanpur): I want to oppose him.

श्री अब्दुलगनी डार (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त देश एक मोड़ पर है। मोड़ यह आया है कि देश को तबाही की तरफ जाना है या उसको सम्भलना है। मुझको किसी से विरोध नहीं है। अगर पहाड़ी भाइयों को इन्साफ नहीं मिला है तो उनको इन्साफ मिलना चाहिये। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि कोई यहाँ आये और कहे कि चूँकि उसको इन्साफ नहीं मिला इसलिए वह अलग स्टेट चाहते हैं बजाय यह कहने के कि जिस स्टेट ने गुनाह किया है, उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, उनके रीजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, वह उसकी तरफ ध्यान दे।

जो हमारा सेंटर है, यूनियन गवर्नमेंट है उसको चाहिये था कि वह आसाम गवर्नमेंट की मदद करती, बजाय इसके वह आज मुल्क के टुकड़े-टुकड़े करने की तरफ जा रही है। मेरा ईमानदारी से यह खयाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले यह समझते हैं कि अगर छोटे-छोटे टुकड़े करते जायेंगे तो सेंटर का दबदबा ज्यादा रहेगा। अगर बड़ी-बड़ी स्टेट्स रहेंगी तो वह बात नहीं रहेगी। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि इसमें कोई सदाकत है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है कि एक मुल्क कहला सकता है। वह बड़े-बड़े देशों से भी बड़ा

सूबा है, लेकिन उसकी तरफ देखने की हुकूमत की जुर्रत नहीं है। वह उसकी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देख सकते।

यह सब मैं इसलिये कह रहा हूँ कि आखिर क्यों यह जल्दबाजी की जा रही है? जब छः महीने बाद अगले सेशन में यह लाया जा सकता है तब इसको जल्दी लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ कि अगर वह इस तरह से करते जायेंगे तो वह हमेशा मजबूर होंगे इसके लिये और उनको यह नहीं करना चाहिये। मि० चव्हाण यह कहते हैं कि एक के बाद एक राज्य बनते चले गये पंडित जी के समय में। उनके जमाने में आन्ध्र बना। मुझको उसकी खुशी हुई। आन्ध्र से अलग अगर तेलंगाना बनेगा तब शायद मुझको उसकी भी खुशी होगी क्योंकि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने का फैसला हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरिट्स में जा रहे हैं।

श्री अब्दुलगनी डार : यह तो मैंने प्री-एम्बल के तौर पर अर्ज किया है।

इस एमेंडमेंट के बिना देश में उलटपुलट हो जाएगी क्या इसलिए श्री चव्हाण आईन की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं? उनको क्यों जल्दी हुई? क्यों वह चाहते हैं कि इसको अभी पास किया जाए? मैं समझता हूँ कि यह जो रास्ता है यह बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ कि देशवासियों को पूरा मौका दिया जाना चाहिये कि वे इस पर सोचें, इस पर विचार करें। उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिये और जो दूसरी पार्टीज यहाँ हैं, उनको भी सोचना चाहिये। मैं देखता हूँ कि लैफ्ट पार्टी जो है वह इस मामले में तो कांग्रेस की बड़ी मदद कर रही है लेकिन तेलंगाना के मामले में मुखालिफत कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों चव्हाण साहब रूलज़ का उल्लंघन करना चाहते हैं। इन रूलज़ को उन्होंने खुद बनाया है। रूल कहता है कि इसे सेशन में नहीं ला सकते हैं। उनको इस सेशन में इसको नहीं लाना चाहिये था और आपको भी इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये।

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاٹوں)

ادھیکش مہودے۔ میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دلش ایک موڑ پر ہے۔ موڑ یہ ہے کہ آیدیش کو تباہی کی طرف جانا ہے یا اس کو سنبھلنا ہے۔ مجھ کو کسی سے درد دھ نہیں ہے۔ اگر پہاڑی بھائیوں کو انصاف نہیں ملا ہے تو ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی یہاں آنے اور کہے کہ جس اسٹیٹ نے گناہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کے ریجن کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ اس کی طرف دھیان دے۔

جو ہمارا سینٹر ہے۔ یونین گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس گورنمنٹ کی مدد کرتی بجائے اس کے وہ آج ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ میرا ایمانداری سے یہ خیال ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے جائیں گے تو سینٹر کا دبر بہ زیادہ رہے گا۔ اگر بڑی بڑی اسٹیٹس رہیں گی تو وہ بات نہیں رہے گی۔ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتر پردیش اتنا بڑا صوبہ ہے کہ ایک ملک کھلا سکتا ہے۔ وہ بڑے بڑے دلشوں سے بھی بڑا صوبہ ہے۔ لیکن اس کی طرف دیکھنے کی حکومت کی جرات نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔

یہ سب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آخر

کیوں یہ جلد بازی کی جا رہی ہے۔ جب ۶ مہینے بعد اگلے سیشن میں یہ لایا جاسکتا ہے تب اس جلدی لانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرح سے کرتے جائیں گے تو وہ ہمیشہ مجبور ہوں گے اس کے لئے اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسٹر چوہان یہ کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک راجیہ بنتے چلے گئے پنڈت جی کے سسے میں۔ ان کے زمانے میں آندھرا بنا۔ مجھ کو اس کی خوشی ہوئی۔ آندھرا سے الگ اگر تلنگانہ بنے گا تب شاید مجھکو اس کی بھی خوشی ہوگی کیونکہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔

ادھیکش مہودے۔ مائینٹہ سڈ سب میرٹس میں جا رہے ہیں۔

شری عبدالغنی ڈار۔ یہ تو میں نے پری ایبل کے طور پر عرض کیا ہے۔

اس ایمنڈمنٹ کے بنا دلش میں الٹ پلٹ ہو جائیگی کیا اس لئے شری چوہان آئین کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کیوں جلدی ہوئی۔ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ابھی پاس کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دلش واسیوں کو پورا موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اس پر سوچیں۔ اس پر دوچار کریں۔ ان کی پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے اور جو دوسری پارٹیز یہاں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں

کہ ریفرنڈم پارٹی جو ہے وہ اس معاملہ میں تو کاغذ کی بڑی مدد کر رہی ہے لیکن تیلنگا کے معاملے میں مخالفت کر رہی ہے۔ میں جانتا جا رہا ہوں کہ کیوں چوہان صاحب رولز کا انگنٹن کرنا چاہتے ہیں۔ ان رولز کو انہوں نے خود بنایا ہے۔ رول بھتا ہے کہ اس سیشن میں نہیں لاسکتے ہیں۔ ان کو اس سیشن میں اس کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ اور آپ کو سبھی اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے

MR. SPEAKER: This is a motion under rule 338 for the suspension of rule 338. The hon. Member speaks of U. P., Andhra and other places. One should not speak on the merits of the Bill now. The question is:

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1969 be suspended."

The motion was adopted

12.12 hrs.

CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

MR. SPEAKER: The House will now take up the Constitution Amendment Bill for which two hours had been allotted. I propose to put the motion for consideration to vote at about 3 P.M. and thereafter the clauses and the motion for passing between 3 and 4 P.M. I say this so that the House may know the time and they may all be here.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): I move :*

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

With your permission, Mr. Speaker, I shall just repeat what I said before.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Bihar): On a point of order. The whole Bill brought before us gives us the idea for having a new State or one more State under our Constitution. Though it has been worded most guardedly—it says 'an autonomous State' for all intents and purposes it creates a new State. My point of order arises under rule 376 (1). Under article 2 of our Constitution, Parliament may by law admit into the Union or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit. Under article 3, Parliament may by law form a new State by separation of territories from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State. There is a provision which says :

"Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired."

We are having a new State by the name of 'autonomous State'.

MR. SPEAKER: There is no point of order; you can speak on this later on, not now.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: I am finishing in one minute.

To have a new State, it requires the recommendation of the President. Not only that. The recommendation of the State legislature is also necessary. In this case, we find in the Bill that the recommendation of the President has been obtained under article 117 (1) and (3) but no such recommendation has been obtained under

*Moved with the recommendation of the President.